

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	श्रावण, 28 सोमवार, शाके 1941-अगस्त 19, 2019 <i>Sravana, 28 Monday, Saka 1941-August 19, 2019</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2019

संख्या प.10 (153) नविवि/3/2010:-नगरीय क्षेत्र टोडारायसिंह (जिला टोंक) के मास्टर प्लान-2031 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.10.2011 द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के तहत अनुमोदित कर अधिसूचित किया गया था।

राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक संख्या 155 दिनांक 20.08.2018 के एजेण्डा संख्या 9/एजेजेड/टोडारायसिंह में लिये गये निर्णय के क्रम में टोडारायसिंह के भू-उपयोग योजना मानचित्र-2031 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :

1. टोंक सडक से मालपुर सडक एवं मालपुरा सडक से जयपुर सडक को जोड़ते हुए हाईड्रेंटेशन लाईन के सहारे-सहारे 60 मीटर चौड़ी सडक बाईपास के रूप में प्रस्तावित की गई है एवं सडक मार्गाधिकार के पश्चात् इस के दोनो ओर 30-30 मीटर चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।
 2. टोंक सडक से मालपुरा सडक को जोड़ते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सडक एवं मालपुरा सडक से जयपुर सडक को जोड़ते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित 36 मीटर चौड़ी सडक का मार्गाधिकार क्रमश 18 मीटर एवं 30 मीटर प्रस्तावित कर दिया गया है।
 3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के फलस्वरूप प्रस्तावित 18 मीटर एवं 30 मीटर सडको के उत्तर दिशा में सडक एवं वृक्षारोपण पट्टी के स्थान पर भू-उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी, दक्षिण दिशा से पूर्व में प्रस्तावित भू-उपयोग सडक तक यथावत प्रस्तावित कर दिये गये हैं।
- टोडारायसिंह भू-उपयोग योजना मानचित्र-2031 में किये गये उक्त संशोधन की प्रति का अवलोकन नगर पालिका टोडारायसिंह (जिला टोंक) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मगन लाल योगी,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।